

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
08.02.2017 को लोक सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 952
मेघालय में यूरेनियम भंडार

952. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करने के लिए मेघालय राज्य में यूरेनियम भंडार का दोहन करने की अपनी योजनाओं को कार्यान्वित किया है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संबंधित परियोजना की स्थिति क्या है;
- (ग) निष्कर्षण सुविधा स्थापित करने हेतु क्या मेघालय सरकार के साथ कोई नई बैठक की गई है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

- (क) जी, हाँ।
- (ख) मेघालय में, डोमियासियात, वाखिन, लॉस्टॉइन आदि में काफी बड़े क्षेत्र में यूरेनियम खनिजीकरण ज्ञात हुई है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (यूसीआईएल) ने पहले से ही "कैलिंग, फैनडेंगसोहियांग मवथाबाह (केपीएम) यूरेनियम खनन परियोजना" के नाम से डोमियासियात में खनिज संसाधनों के विकास की योजना बनाई है। इस परियोजना में देश के नाभिकीय बिजलीघरों के लिए पर्याप्त मात्रा में नाभिकीय ईंधन का उत्पादन करने की क्षमता है।
केपीएम यूरेनियम खनन परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को परमाणु ऊर्जा आयोग ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है। परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनुमति पर्यावरण एवं वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) से दिसम्बर 2007 में प्राप्त की जा चुकी है। वार्षिक लीज किराया आधार पर भूमि अधिग्रहण के लिए, परियोजना स्थल के भूमि धारकों एवं यूसीआईएल के बीच मई, 2007 में समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। भू-स्वामियों के साथ भूमि लीज का निष्पादन करने के लिए अनुमोदन, माइनिंग लीज प्रदान करने और परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति हेतु मेघालय सरकार के साथ बात चल रही है।
- (ग) जी, हाँ।
- (घ) संबंधित प्राधिकारियों के साथ निम्नानुसार बैठकें आयोजित की गईं :
 - i. खनन लीज संबंधी मामलों पर यूसीआईएल के अधिकारियों ने निदेशक, खनिज संसाधन तथा खनन अभियंता, खनन एवं भू-विज्ञान विभाग के साथ 01.03.2016 को बैठक की।

- ii. संयुक्त सचिव (उद्योग एवं खनिज), पऊवि, मुंबई ने मेघालय सरकार के मुख्य सचिव, आयुक्त एवं सचिव ऊर्जा, निदेशक, डिस्ट्रीब्यूशन, मेघालय एनर्जी कारपोरेशन लि. (एमईईसीएल), निवासी आयुक्त, मेघालय हाउस, नई दिल्ली, जो केपीएम परियोजना के लिए नोडल अधिकारी हैं, के साथ 11 मई, 2016 को बैठक की।
- iii. संयुक्त सचिव (उद्योग एवं खनिज), पऊवि ने पुलिस महानिदेशक, मेघालय सरकार के साथ 12.05.2016 को बैठक की।
- iv. क्षेत्रीय निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (पखनि), उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर), शिलाँग ने पखनि अधिकारियों एवं यूसीआईएल अधिकारियों के साथ मेघालय के महामहिम राज्यपाल के साथ 18 अगस्त, 2016 को राजभवन, शिलाँग में बैठक की।
- v. परियोजना की स्थापना के लिए एमएसपीसीबी की सहमति हेतु यूसीआईएल के अधिकारियों ने मुख्य वन संरक्षक एवं अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेघालय के साथ बैठक की।
